



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 30—जून 5, 2015 (ज्येष्ठ 9, 1937)

No. 22]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 30—JUNE 5, 2015 (JYAISTHA 9, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	331	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	505	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1339	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 515
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 123
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 451
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	331	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	505	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....	1339	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	515
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....	123
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	451
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

\*Folios not received.

**भाग I — खण्ड 1****[PART I—SECTION 1]**

**[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]**

**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 2015

संकल्प

सं. ई. 4(1)/2014-रा.भा.(वि.वि.)—भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के 2 जुलाई, 2010 के संकल्प संख्या ई. 4(1)/2009-रा.भा. (वि.वि.) जिसे दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तथा 07 अगस्त, 2013 के समसंख्यक संकल्प द्वारा संशोधित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार द्वारा विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है। समिति का गठन इस प्रकार होगा:-

1. विधि और न्याय मंत्री	अध्यक्ष
2. श्री बिरेन्द्र कुमार चौधरी, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
3. श्री रविन्द्र कुमार जेना, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
4. श्री आर. के. सिन्हा, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
5. श्री मो. नदीमुल हक, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
6. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य (लोक सभा) संसदीय राजभाषा	सदस्य
7. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, संसद सदस्य (राज्य सभा) समिति के प्रतिनिधि	सदस्य
8. श्री मोहन प्रकाश दूबे, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि	सदस्य
9. श्री कृष्णानंद झा, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ के प्रतिनिधि	सदस्य
10. आचार्य श्री यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद, 9-28-4, बालाजी नगर, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	सदस्य
11. श्री उमाशंकर मिश्र, 695, न्यू कोट गांव, जी.टी. रोड, गाजियाबाद-201009, उत्तर प्रदेश	सदस्य
12. श्री राधाकांत भारती, द्वारा- श्रीमती शिवरानी, 56- नागिन लेक, पीरागढी, नई दिल्ली	सदस्य
13. प्रो. पवन अग्रवाल, प्रश्रय, 610/191ए, केशव नगर, सीतापुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	सदस्य
14. श्री एस.सी. मिश्र, न्यू गोपालपुर (प.), मोतिहारी, जि. पूर्वी चंपारण, बिहार	सदस्य
15. डॉ. शिवन कृष्ण रैणा, 2/537, अरावली विहार, अलवर, राजस्थान	सदस्य
16. श्री त्रिलोक सिंह रावत, सी-23, सृजन विहार, न्याय खंड-II, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	सदस्य
17. सचिव, विधायी विभाग	सदस्य
18. सचिव, विधि कार्य विभाग	सदस्य
19. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	सदस्य
20. अपर सचिव, विधायी विभाग	सदस्य

21. अपर सचिव, विधि कार्य विभाग (राजभाषा प्रभारी)	सदस्य
22. संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी (प्रशा.)	सदस्य
23. संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार (प्रशा.)	सदस्य
24. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
25. प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन	सदस्य
26. संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, (राजभाषा प्रभारी), राजभाषा खंड	सदस्य-सचिव

2. समिति के कार्य, संविधान में यथा उल्लिखित राजभाषा सम्बन्धी सिद्धान्तों, राजभाषा अधिनियम, 1963 और तदधीन बनाए गए नियमों, केन्द्रीय हिन्दी समिति के नीति निर्णयों एवं गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा राजभाषा के सम्बन्ध में जारी किए गए निर्देशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के बारे में केन्द्र सरकार को सलाह देना होगा।

3. कार्यकाल

- (i) समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष अथवा वर्तमान लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगा परन्तु समिति में नाम निर्दिष्ट संसद सदस्य, संसद के सदस्य न रहने के समय से इस समिति के भी सदस्य नहीं रहेंगे; और
- (ii) अवधि समाप्त होने से पहले रिक्त स्थान पर नियुक्त सदस्य, समिति की शेष रही अवधि के लिए ही सदस्य होंगे।

4. सामान्य

- (i) समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा परन्तु यह अपनी बैठक किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित कर सकती है; और
- (ii) गैर सरकारी सदस्यों को उनके निवास स्थान से बैठक के स्थान तक सबसे कम दूरी वाले रास्ते से उनकी पात्रता संबंधी दूरों पर यात्रा भत्ता दिया जाएगा। उन्हें समिति की बैठक में शामिल होने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों को यथा स्वीकृत दैनिक भत्ता भी दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/संसदीय कार्य मंत्रालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक/संघ लोक सेवा आयोग/नीति आयोग/निदेशक, लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाया जाए।

आर.डी.मीना

संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी

(राजभाषा प्रभारी)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 2015

संकल्प

संख्या ई-11015/4/2014-हिन्दी- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के संकल्प संख्या ई-11015/3/2011-हिन्दी, दिनांक 12 जुलाई, 2012 का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है। इस समिति के सदस्य और कार्य इस प्रकार होंगे:-

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री       | अध्यक्ष   |
| 2. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |

## लोक सभा के सदस्य

- |    |                               |       |
|----|-------------------------------|-------|
| 3. | श्री रमेन डेका                | सदस्य |
| 4. | श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी | सदस्य |

## राज्य सभा के सदस्य

- |    |                        |       |
|----|------------------------|-------|
| 5. | श्री वी.पी. सिंह बदनौर | सदस्य |
| 6. | श्री डी.पी. त्रिपाठी   | सदस्य |

## संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि

- |    |   |       |
|----|---|-------|
| 7. | श्री ताम्रध्वज साहू, संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |
| 8. | श्री तरुण विजय, संसद सदस्य (राज्य सभा)    | सदस्य |

## मंत्रालय द्वारा नामित

- |     |  |       |
|-----|--|-------|
| 9.  | श्री अजय कुमार, ग्रुप एडिटर, बीपीएन टाइम्स, दिल्ली             | सदस्य |
| 10. | श्री असीत कुणाल, ब्यूरो चीफ, ईटीवी नेटवर्क, नई दिल्ली          | सदस्य |
| 11. | श्री अजय कौल, ब्यूरो चीफ, पीटीआई, नई दिल्ली                    | सदस्य |
| 12. | श्री पूरणचंद्र प्रसाद, मुख्य संवाददाता, रांची एक्सप्रेस, रांची | सदस्य |

## राजभाषा विभाग द्वारा नामित

- |     |  |       |
|-----|--|-------|
| 13. | श्री विनय प्रीत सिंह, अधिवक्ता एवं प्रमुख, सार्वजनिक नीति एवं कार्यनीति, स्क्राईबोर्ड, नई दिल्ली | सदस्य |
| 14. | श्री गोपाल पहाडिया, सामाजिक कार्यकर्ता, नई दिल्ली  | सदस्य |
| 15. | श्री कुणाल, ब्यूरो प्रमुख, राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली  | सदस्य |

## स्वैच्छिक संस्थाओं आदि के प्रतिनिधि

- |     |   |       |
|-----|---|-------|
| 16. | श्री बन्दोपंत पाटील, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा        | सदस्य |
| 17. | श्री जय राम यादव, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली | सदस्य |

## सरकारी सदस्य

- |     |  |       |
|-----|--|-------|
| 18. | सचिव, राजभाषा विभाग  | सदस्य |
| 19. | सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग   | सदस्य |
| 20. | सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग   | सदस्य |
| 21. | अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार,<br>उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय | सदस्य |
| 22. | अपर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग   | सदस्य |
| 23. | प्रधान सलाहकार, उपभोक्ता मामले विभाग   | सदस्य |
| 24. | संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग  | सदस्य |
| 25. | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव              | सदस्य |
| 26. | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली                            | सदस्य |
| 27. | प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली                                    | सदस्य |
| 28. | प्रबंध निदेशक, सेंट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली                   | सदस्य |

29.	अध्यक्ष, भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य
30.	मुख्य निदेशक, शर्करा एवं वनस्पति निदेशालय, नई दिल्ली	सदस्य
31.	महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली	सदस्य
32.	अध्यक्ष, वायदा बाजार आयोग, मुम्बई	सदस्य
33.	महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षणशाला, कोलकाता	सदस्य
34.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, नई दिल्ली	सदस्य
35.	पंजीयक, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
36.	संयुक्त सचिव (राजभाषा प्रभारी), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	सदस्य-सचिव

## 2. समिति के कार्य

इस समिति के कार्य उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी अधीनवर्ती कार्यालयों को सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा निर्धारित नीति संबंधी ढांचे के अंतर्गत आने वाले मामलों पर सलाह देना होगा।

## 3. कार्यकाल

इस समिति का कार्यकाल इसके पुनर्गठन की तारीख से तीन वर्ष तक होगा, परन्तु -

- (क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।
- (ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे अपने-अपने उन पदों पर हैं जिनके कारण वे समिति के सदस्य हैं।
- (ग) यदि किसी सदस्य के त्याग-पत्र देने, मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा।

## 4. सामान्य

समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा, किन्तु समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

## 5. यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के का0जा0 संख्या-11/20034/4/86-रा0भा0(क-2) में निहित दिशा-निदेशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

## आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, लेखा नियंत्रक, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

प्रशांत त्रिवेदी  
संयुक्त सचिव

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2015

सं0 एमएसडीई-19/01/2015-सीडी—मंत्रिमण्डल सचिवालय के दिनांक 16 अप्रैल, 2015 के आदेश संख्या 01/21/9/2014-केबिनेट और श्रम और रोजगार मंत्रालय के दिनांक 21.04.2015 के आदेश सं. डीजीईएंडटी-ए-22020/01/2015-प्रशा.11 के अनुसरण में उप महानिदेशक (प्रशिक्षण) एवं उप

महानिदेशक (शिक्षता प्रशिक्षण) के अन्तर्गत कार्यरत रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईएंडटी) के दो शीर्षस्थ स्क्वों को उनकी सहयोग प्रणाली सहित कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) में दिनांक 16.04.2015 से स्थानान्तरित कर दिया गया है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के दिनांक 21/24 अगस्त, 1956 और 30 सितम्बर, 2016 तक संशोधित संकल्प संख्या टीआर/ईपी-24/56 के आंशिक आशोधन में, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) को 13 मई, 2015 से इसके उपरान्त निम्नानुसार संशोधित माना जाएगा। परिषद् में अब निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(क) केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	अध्यक्ष
(ख) सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय	उपाध्यक्ष
(ग) प्रशिक्षण महानिदेशक/संयुक्त सचिव, एमएसडीई	सदस्य
(घ) उप महानिदेशक (प्रशिक्षण)	सदस्य
(ङ) उप महानिदेशक (शिक्षता प्रशिक्षण)	सदस्य
(च) इनमें से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि:-	
i. अतिलघु, लघु एवं मझौले उद्यम मंत्रालय	सदस्य
ii. वस्त्रमंत्रालय	सदस्य
iii. रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	सदस्य
iv. श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य
(छ) इनमें से प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि:-	
i. उत्तर प्रदेश	सदस्य
ii. बिहार	सदस्य
iii. महाराष्ट्र	सदस्य
iv. राजस्थान	सदस्य
v. आंध्र प्रदेश	सदस्य
vi. त्रिपुरा	सदस्य
vii. संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	सदस्य
(ज) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(झ) नियोक्ताओं के दो प्रतिनिधि:-	
i. श्री अरुण कुमार झा अपर महाप्रबंधक (एचआरडीसी) मानव संसाधन विकास केंद्र, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रामचंद्रपुरम, हैदराबाद-502032, तेलंगाना	सदस्य
ii. श्री बी सुरेश प्रमुख कर्मचारी संबंध, कौशल विकास एवं सीएसआर टाटा मोटर्स लिमिटेड, बंबई हाउस 24 होमी मोदी स्ट्रीट, मुंबई- 400001	सदस्य
(ञ) कामगा रसंगठनों के दो प्रतिनिधि:-	सदस्य
i. श्री सोहन लाल गुप्ता, अखिल भारत सचिव, भारतीय मजदूर संघ, मिनी बैंक, पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र-136128 (हरियाणा)	

- ii. श्री बी. वेंकटाराव, आईएनटीयूसी, सदस्य  
 एमएलसी, फ्लैट सं. 404, डी.सं. 1-3-183/49/9-बी  
 सॉलिटियर रेजीडेंसी पी एंड टी कालोनी,  
 गांधी नगर के सामने  
 हैदराबाद-500029

- (ट) निदेशक (प्रशिक्षण) सदस्य सचिव

परिषद् या परिषद् द्वारा नियुक्त किसी स्थाई समिति के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल नामांकन की तिथि से वर्तमान परिषद् की कार्यावधि अर्थात् 30 सितंबर, 2016 तक होगा बशर्ते कि किसी विशिष्ट निकाय में सदस्य के रूप में अथवा किसी विशिष्ट नियुक्ति के धारक के रूप में नियुक्त या नामित कोई सदस्य स्वतः उस स्थिति में सदस्य नहीं रहेगा अगर वह इस निकाय का सदस्य या उस नियुक्ति का धारक नहीं रहता है। यदि शेष अवधि के दौरान परिषद् के गैर-सरकारी सदस्यों के किसी नैमित्तिक रिक्त पद पर कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, तो वह उस अवधि तक सदस्य रहेगा, जब तक वह व्यक्ति सदस्य रहता, जिसके रिक्त स्थान पर नियुक्ति की गई है।

राजेश अग्रवाल  
 संयुक्त सचिव



## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

## (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 14<sup>th</sup> May 2015

## RESOLUTION

No.E.4(1)/2014-O.L.(L.D.) In supersession of the Government of India in the Ministry of Law and Justice, Legislative Department's Resolution No.E-4(1)/2009-O.L.(L.D.), dated the 2<sup>nd</sup> July, 2010, as amended by resolution of even number dated the 16<sup>th</sup> April, 2013 and 07<sup>th</sup> August, 2013, the Government of India has decided to reconstitute the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Law and Justice for Legislative Department and Department of Legal Affairs. The composition of the Samiti will be as follows:-

1.	Minister of Law and Justice	:	Chairman
2.	Shri Birendra Kumar Chaudhari, Member of Parliament (Lok Sabha)	:	Member
3.	Shri Rabindra Kumar Jena, Member of Parliament (Lok Sabha)	:	Member
4.	Shri R.K. Sinha, Member of Parliament (Rajya Sabha)	:	Member
5.	Shri Md. Nadimul Haque, Member of Parliament (Rajya Sabha)	:	Member
6.	Shri Shrirang Appa Barne, Member of Parliament (Lok Sabha), representative of Committee of Parliament on Official Language	:	Member
7.	Shri Satyavrat Chaturvedi, Member of Parliament (Rajya Sabha), representative of Committee of Parliament on Official Language	:	Member
8.	Shri Mohan Prakash Dube, representative of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad	:	Member
9.	Shri Krishnanand Jha, representative of Akhil Bharatiye Hindi Sanstha Sangh	:	Member
10.	Acharya Shri Yarlagadda Lakshmi Prasad, 9-28-4, Balaji Nagar, Visakhapatnam, Andhra Pradesh	:	Member
11.	Shri Umashankar Mishra, 695, New Kot Gaon, G.T. Road, Ghaziabad-201009, Uttar Pradesh	:	Member
12.	Dr. Radhakant Bharti, C/o Smt. Shivrani, 56- Nagin Lake, Peeragarhi, New Delhi	:	Member
13.	Prof. Pawan Agarwal, Prashraya, 610/191A, Keshav Nagar, Sitapur Road, Lucknow, Uttar Pradesh	:	Member
14.	Sh. S.C. Mishra, New Gopalpur(W), Motihari, Bihar	:	Member
15.	Dr. Shiban Krishna Raina, 2/537, Aravali Vihar, Alwar, Rajasthan	:	Member
16.	Sh. Trilok Singh Rawat, C-23, Sreejan Vihar, Nyaya Khand-II, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh	:	Member
17.	Secretary, Legislative Department	:	Member
18.	Secretary, Department of Legal Affairs	:	Member
19.	Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs and Hindi Adviser to the Government of India	:	Member
20.	Additional Secretary, Legislative Department	:	Member

- |     |   |   |                  |
|-----|---|---|------------------|
| 21. | Additional Secretary, Department of Legal Affairs (Incharge, Official Language)             | : | Member           |
| 22. | Joint Secretary & Legislative Counsel (Admn.)   | : | Member           |
| 23. | Joint Secretary & Legal Advisor (Admn.)   | : | Member           |
| 24. | Joint Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs                  | : | Member           |
| 25. | Chief Editor, Vidhi Sahitya Prakashan   | : | Member           |
| 26. | Joint Secretary & Legislative Counsel (Incharge, Official Language), Official Language Wing | : | Member-Secretary |

2. The functions of the Samiti will be to advise the Central Government on matters relating to the implementation of the principles in respect of Official Language as given in the Constitution, the Official Languages Act, 1963 and the Rules made thereunder, the policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) relating to Official Language with regard to the progressive use of Hindi in the Ministry of Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs).

### 3. TENURE :

(i) The tenure of the Samiti will be of three years from the date of its reconstitution or till the end of the tenure of the existing Lok Sabha, whichever is earlier, provided that a Member of Parliament nominated to the Samiti shall cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament; and

(ii) The Members appointed against mid-term vacancies shall be the Members for the remaining period of the tenure of the Samiti.

### 4. GENERAL :

(i) The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold the meetings at any other station also.

(ii) The non-official Members will be paid travelling allowance by shortest route from their residence to the place of meeting as per their entitlement. They will also be paid daily allowance as admissible to the members of a High Powered Committee for attending the meetings of the Samiti.

### ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to: -

President's Secretariat / Prime Minister's Office / Cabinet Secretariat / Ministry of Parliamentary Affairs / Lok Sabha Secretariat / Rajya Sabha Secretariat / C.A.G. of India/ U.P.S.C./ NITI Aayog / Director of Audit, Central Revenues, New Delhi, and all Ministries and Departments of the Government of India .

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India and uploaded on the website of this Department for general information.

R.D. MEENA

Joint Secretary & Legislative Counsel (Incharge, Official Language)

### MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

#### (DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 4th February 2015

### RESOLUTION

No. E-11015/4/2014-Hindi: In supersession of Resolution No. E-11015/3/2011-Hindi, dated the 12<sup>th</sup> July, 2012 issued by the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution the Government of India have decided to re-constitute the Hindi Salahakar Samiti for the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution. The composition and the functions of the Samiti will be as follows:-

- |    |   |          |
|----|---|----------|
| 1. | Minister for Consumer Affairs, Food & Public Distribution | Chairman |
|----|---|----------|

2.	Minister of State for Consumer Affairs, Food & Public Distribution	Vice Chairman
Members of Lok Sabha		
3.	Shri Ramen Deka	Member
4.	Shri Konda Vishweshwar Reddy	Member
Members of Rajya Sabha		
5.	Shri V.P. Singh Badnore	Member
6.	Shri D.P. Tripathi	Member
Representatives of the Committee of Parliament on Official Language		
7.	Shri Tamradhwaj Sahu, MP (Lok Sabha)	Member
8.	Shri Tarun Vijay, MP (Rajya Sabha)	Member
Non-Official Members(by the Ministry)		
9.	Shri Ajay Kumar, Group Editor, BPN Times, Delhi	Member
10.	Shri Asheet Kunal, Bureau Chief, ETV Network, New Delhi	Member
11.	Shri Ajay Kaul, Bureau Chief, PTI, New Delhi	Member
12.	Shri Puranchandra Prasad, Chief Reporter, Ranchi Express, Ranchi	Member
Nominated by the Department of Official Language		
13.	Sh. Vinay Preet Singh, Advocate & Head, Public Policy and Strategy, Scriboard, New Delhi	Member
14.	Sh. Gopal Paharia, Social Worker, New Delhi	Member
15.	Sh. Kunal, Bureau Chief, Rashtriya Sahara, New Delhi	Member
Representative from Voluntary Organizations		
16.	Shri Bandopant Patil, Rashtrabhasha Prachar Samiti, Vardha	Member
17.	Shri Jai Ram Yadav, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, New Delhi	Member
Officials		
18.	Secretary, Department of Official Language	Member
19.	Secretary, Department of Food & Public Distribution	Member
20.	Secretary, Department of Consumer Affairs	Member
21.	Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution	Member
22.	Additional Secretary, Department of Consumer Affairs	Member
23.	Principal Advisor, Department Consumer Affairs	Member
24.	Joint Secretary, Department of Official Language	Member
25.	All Joint Secretaries of Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution	Members
26.	Chairman & Managing Director, Food Corporation of India, New Delhi	Member
27.	Managing Director, Central Warehousing Corporation, New Delhi	Member
28.	Managing Director, Central Railside Warehouse Company Limited, New Delhi	Member
29.	Chairperson, Warehousing Development and Regulatory Authority, New Delhi	Member
30.	Chief Director, Directorate of Sugar & Vanaspati, New Delhi	Member

31.	Director General, Bureau of Indian Standards, New Delhi	Member
32.	Chairman, Forward Market Commission, Mumbai	Member
33.	Director General, National Test House, Kolkata	Member
34.	Managing Director, National Consumer Cooperative Federation, New Delhi	Member
35.	Registrar, National Consumer Dispute Redressal Commission, New Delhi	Member
36.	Joint Secretary (Incharge of Official Language), Department of Food & Public Distribution	Member-Secretary

## II. Functions of Samiti

The Samiti would render advice to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and all offices under its Administrative Control on matter relating to the progressive use of Hindi for official purpose and on allied issues falling within the framework of the policy laid down by the Ministry of Home Affairs (Department of Official Language).

## III. Tenure

The term of the Samiti will be three years from the date of its reconstitution provided that :

- a member who is a Member of Parliament ceases to be a member of the Samiti as long as he ceases to be a Member of Parliament;
- ex-officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are members of the Samiti;
- if a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death, etc. of a member, the member appointed in that capacity shall hold office for the residual term of three years.

## IV. General

The Headquarters of the Samiti shall be in New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

## V. Travelling and Other Allowances

The non-official member will be paid travelling and daily allowance, for attending the meeting of the Samiti as contained in the guidelines issued by the Department of Official Language vide their O.M. No. II.20034/4/86-OL(A-2) dated 22.1.1987 and as per prescribed rate and rule amended by Government of India from time to time.

## ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Government, Union Territory Administration, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller & Auditor General of India, Controller of Accounts, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution and all the Ministries and Departments of Government of India.

It is also ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

PRASHANT TRIVEDI  
Joint Secy.

## MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

New Delhi, the 25th May 2015

No. MSDE -19/01/2015-CD - In pursuance of the Cabinet Secretariat Order No. 1/21/9/2014-Cab dated 16<sup>th</sup> April, 2015 & Ministry of Labour & Employment Order No. DGE&T-A-22020/01/2015-Adm-II dated 21.04.2015, two verticals of Directorate General of Employment & Training (DGE&T) working under Deputy Director General (Training) & Deputy Director General (Apprenticeship Training) along with their support system have been transferred to Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE) w.e.f 16.04.2015.

In partial modification of Ministry of Labour & Employment Resolution No. TR/EP-24/56 dated 21st/24th August 1956 and amended up to 30<sup>th</sup> September, 2016, the National Council for Vocational Training (NCVT) shall hereinafter stand amended as under, with effect from 13<sup>th</sup> May, 2015. The Council shall now consist of following members:—

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| a) | Union Minister of State (Independent Charge) for Skill Development and Entrepreneurship   | Chairman      |
| b) | Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship   | Vice-Chairman |
| c) | Director General of Training /Joint Secretary, MSDE   | Member        |
| d) | Dy. Director General (Training)   | Member        |
| e) | Dy. Director General (Apprenticeship Training)  | Member        |
| f) | One representative each of:   |               |
|    | i. Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises  | Member        |
|    | ii. Ministry of Textiles  | Member        |
|    | iii. Department of Chemicals & Petro Chemicals  | Member        |
|    | iv. Ministry of Labour & Employment   | Member        |
| g) | One representative each from State of:  |               |
|    | i. Uttar Pradesh  | Member        |
|    | ii. Bihar   | Member        |
|    | iii. Maharashtra  | Member        |
|    | iv. Rajasthan   | Member        |
|    | v. Andhra Pradesh   | Member        |
|    | vi. Tripura   | Member        |
|    | vii. UT of Chandigarh   | Member        |
| h) | One representative of All India Council for Technical Education   | Member        |
| i) | Two representatives of Employers  | Members       |
|    | (i) Shri Arun Kumar Jha ,<br>Addl. General Manager (HRDC),<br>Human Resource Development Centre,<br>Bharat Heavy Electricals Limited,<br>Ramachandrapuram<br>Hyderabad – 502032,Telangana |               |
|    | (ii) Shri V Suresh<br>Head Employee Relations,<br>Skill Development & CSR<br>Tata Motors Limited,<br>Bombay House 24<br>Homi Mody Street,<br>Mumbai 400 001                               |               |
| j) | Two representatives of Workers Organizations  | Members       |
|    | (i) Shri Sohan Lal Gupta,<br>All India Secretary, Bharatiya Mazdoor Sangh,<br>Mini Bank, Pehwa,<br>Distt.Kurukshetra – 136128 (Haryana)   |               |

- (ii) Shri B. Venkata Rao, INTUC,  
MLC, Flat No. 404, D.No. 1-3-183/49/9-B,  
Solitare Residency P&T Colony,  
Opp. Gandhi Nagar,  
Hyderabad – 500029

k) Director (Training)

Member Secretary

The terms of office of all non-official members of the Council or any Standing Committee appointed by the Council shall be upto the tenure of present council i.e. 30<sup>th</sup> September, 2016, provided that a member appointed or nominated in his capacity as a member of a particular body or as the holder of a particular appointment shall automatically cease to be a member if he ceases to be a member of that body or the holder of that appointment. Any person appointed to casual vacancy among the non-official members of the Council will be for the residual term of the persons whose place he fills would have been a member.

RAJESH AGRAWAL  
Joint Secretary